भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/16/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 9 अप्रैल, 2026

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. - एडी(एसएसआर)-09/2025

विषय: मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'नॉर्मल ब्यूटानॉल' या 'एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच।

फा.सं.7/16/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम,1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'नॉर्मल ब्यूटेनॉल' (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया) के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के विस्तार और वृद्धि के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की गई है। तथापि, मामले की शुरुआत के दौरान की गई जांच में, *प्रथम दृष्टया* यह नोट किया गया कि यूरोपीय संघ और सिंगापुर से एनबीए के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करना, जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में बताए गए कारणों की वजह से उचित नहीं था। अत:, यह निर्णय लिया गया था कि पाटनरोधी जांच केवल मलेशिया, दक्षिण

अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के विरुद्ध ही शुरू की जाए।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में संबद्ध जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/16/2025-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जांच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, और क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता है।

3. यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 14/4/2013-डीजीएडी दिनांक 20 नवंबर 2014 के माध्यम से शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दायर एक विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के अनुसरण में और विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार, दिनांक 19 फरवरी 2016 के अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 13/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 अप्रैल 2016 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया।

4. इसके बाद, यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर दिनांक 31 अगस्त 2020 के माध्यम से एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी। जांच के बाद, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर दिनांक 30 मार्च 2021 के माध्यम से, पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 अप्रैल 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। ये शुल्क वर्तमान में लागू हैं और 12 अप्रैल 2026 तक प्रभावी हैं। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 02/2026- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से, मौजूदा शुल्कों को तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए और बढ़ा दिया। तदनुसार, ये शुल्क 12 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

5. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही रद्द न कर दिया जाए, ऐसे शुल्क लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नियमावली का नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

> *"अधिनयम के तहत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रभावी होगा, जब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उपयुक्त समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर या अपनी निजी पहल पर उस अवधि से पूर्व शुरु की गई समीक्षा के संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है"*

6. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर, इस बात की समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसके बार-बार होने की संभावना है।

7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में अंतिम जांच परिणाम संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर दिनांक 30 मार्च 2021 और अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 अप्रैल 2021 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

8 जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

8.1 जांच की शुरुआत

i. नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत से पूर्व संबद्ध देशों की सरकारों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

ii. नियम 6 के अनुसार, आवेदन-पत्र की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संपर्क के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मिलने पर, प्राधिकारी ने 27 सितंबर 2025 को अधिसूचना संख्या 7/16/2025-डीजीटीआर जारी की। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा

संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

iii. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राप्त आंकड़ों पर लेनदेनों की उचित जांच के बाद, आवश्यक विश्लेषण के लिए विश्वास किया गया है।

iv. नियम 6(2) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों और संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों, भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात आयातकों और आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति साझा कर जांच की शुरुआत के संबंध में सूचित किया गया था।

8.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति संबद्ध देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों को, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई, जिन्होंने आवेदन-पत्र की प्रति के लिए लिखित रूप में अनुरोध किया था।

8.3 संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. नियम 6(4) के अनुसार, जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु, निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी गई थी।

क्र.सं.	संबद्ध देश	उत्पादक/निर्यातक
1	मलेशिया	डाउ ऑप्टिमल केमिकल्स एसडीएन.बीएचडी
2		पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन.बीएचडी
3	दक्षिण अफ्रीका	सासोल मिडिल ईस्ट एफजेडसीओ
4	संयुक्त राज्य अमेरिका	बीएएसएफ
5		डाउ केमिकल्स
6		ईस्टमैन केमिकल कंपनी

7		आईसीसी केमिकल कारपोरेशन
8		आईएनईओएस
9		ऑक्सिया कारपोरेशन
10		सासोल नॉर्थ अमेरिका
11		टेक्स मार्क केमिकल्स

ii. प्रश्नावली संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से भेजी गई थी। संबद्ध देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

iii. उपरोक्त के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	संबद्ध देश	उत्पादक/निर्यातक
1	मलेशिया	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी
2		पीसी डेरिवेटिव एसडीएन बीएचडी
3		पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड

8.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रश्नावलियां भेजी:

क्र.सं.	भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं के नाम
1	एल्किल एमाइन केमिकल्स लिमिटेड
2	अंकिता केमिकल कारपोरेशन
3	अनुशक्ति केमिकल्स एंड ड्रग्स लिमिटेड
4	एपीआई इंडस्ट्रियल कारपारेशन

5	अप्रा एंटरप्राइजेज
6	एशियन सॉल्वोकेम प्राइवेट लिमिटेड
7	बालमुकुंद केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
8	बुनीशा केम प्राइवेट लिमिटेड
9	सी जे शाह एंड कंपनी
10	डागा ग्लोबल केमिकल्स लिमिटेड
11	दीपक नाइट्राइट लिमिटेड
12	डॉर्फकेटल स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड
13	हरेश पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
14	हेज़ल मर्कैंटाइल लिमिटेड
15	जागृति प्लास्टिक्स लिमिटेड
16	के एल जे ग्रुप
17	केतुल केम प्रा. लि
18	केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड
19	कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड
20	ललिता केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
21	नूतन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
22	ओवरसीज पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड
23	पारस डाइज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
24	पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
25	पीसीएल ऑयल एंड सॉल्वेंट्स लिमिटेड
26	पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड
27	प्लास्टिचेम इंडस्ट्रियल कारपोरेशन
28	पोन प्यूरे केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
29	रचना प्लास्टिसाइज़र
30	रमनिकलाल एस गोसालिया एंड कंपनी
31	संजय केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	सुप्रीम इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
33	सुरभि एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
34	विसेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
35	युग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

ii. भारत के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं के नाम
1	बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
2	केएलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड

3	केएलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड
4	केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड
5	पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

iii. जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में, इंडियन प्लास्टिसाइज़र्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी इस जांच में कानूनी अनुरोध किए हैं।

iv. उन सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पंजीकरण कराया था। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे इस कार्यवाही में अपनी सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करें।

8.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

i. जैसा कि जांच शुरू शुरुआत अधिसूचना में नोट किया गया है, जांच की अवधि ('पीओआई') 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मानी गई थी। क्षति की अवधि में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि को शामिल किया गया था।

8.6 आगे की प्रक्रिया

i. सभी ज्ञात उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। यह आर्थिक हित प्रश्नावली संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। घरेलू उद्योग, तथा भाग लेने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की गई थी।

ii. जिन विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई उत्तर नहीं दिया है, या जिन्होंने इस जांच से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

iii. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

iv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 5 जनवरी 2026 को आयोजित एक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें, जिसके बाद वे अपने प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

v. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया है, या अन्यथा आवश्यक सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।

vi. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच, गोपनीयता के उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को जहां भी आवश्यक था, स्वीकार कर लिया गया, ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का एक पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर भी उपलब्ध कराएं।

vii. प्राधिकारी ने 16 मार्च 2026 को सभी आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों के बीच परिचालित किया। प्राधिकारी ने आवश्यक मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध, जो पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र थे, और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए उन्हें दोहराया नहीं गया हे।

viii. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया, जिसे वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक माना गया। प्राधिकारी ने इस मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

ix. क्षतिरहित कीमत की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, यह गणना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।

x. प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम को तैयार करने में वर्तमान जांच से संगत माने गए और साक्ष्य से समर्थित सीमा तक इस कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए मुद्दों और दी गई सूचना की जांच की।

xi. इस अंतिम जांच परिणाम में "***" गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xii. वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉ. = 85.43 रुपये है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

10. विचारधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सामान्य ब्यूटानॉल है।

ख. उत्पाद का क्षेत्र वही है, जो मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित के समान ही बना हुआ है। मूल जांच में परिभाषित और जांच की शुरुआत के स्तर पर माने जाने वाले विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है -

"विचाराधीन उत्पाद नार्मल ब्यूटानॉल है। नार्मल ब्यूटानॉल एक प्राथमिक अल्कोहल है जिसकी संरचना 4-कार्बन और आणविक सूत्र सी4एच90एच है। नार्मल ब्यूटानॉल एसिड-क्युरेबल लैक्वर और यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिन से प्राप्त बेकिंग फिनिश के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है। एन-ब्यूटानॉल का एक बड़ा हिस्सा कोटिंग उद्योगों और मुद्रण स्याही में विलायक के रूप में उपयोग के लिए व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाता है। नार्मल ब्यूटानॉल का उपयोग दवाओं और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में अर्क के रूप में, पॉलिश और क्लीनर में योजक के रूप में, वस्त्र उद्योग के विलेयकारक के रूप में, डीसिंग तरल पदार्थों में योजक के रूप में, गैसोलीन में एंटी-बर्फ़ीला योजक के रूप में, सेलुलोज़ नाइट्रेट के लिए ह्यूमेक्टेंट के रूप में, ग्लाइकोल ईथर के उत्पादन में फीडस्टॉक के रूप में और फ्लोटेशन एड्स (ब्यूटाइल ज़ैंथेट) और ब्यूटाइल मोनो कार्बोक्सिलेट्स, ब्यूटाइल एसीटेट, ब्यूटाइरेट के उत्पादन के लिए शुरुआती सामग्री के रूप में भी किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 2905 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद 29051300 के तहत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

12. किसी भी आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। इस प्रकार, वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में है और जांच की शुरुआत के स्तर पर माना गया है।

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "नॉर्मल ब्यूटानॉल" है। "

13 नार्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल नैफ्था और प्रोपलीन हैं।

14. एन-ब्यूटानॉल का उत्पादन औद्योगिक रूप से पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक प्रोपलीन से किया जाता है। प्रोपलीन को रोडियम आधारित समरूप उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्यूटाइरल्डिहाइड में हाइड्रोफॉर्मिलेट किया जाता है, जिसे ऑक्सो प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ब्यूटिरैल्डिहाइड को फिर एन-ब्यूटानॉल बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है।

15. विचाराधीन उत्पाद 'आर्गेनिक केमिकल्स' शीर्ष के तहत और उप-शीर्ष 2905 13 00 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह

भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

16. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है, और इस जांच के लिए इसे अपनाया गया है।

17. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामान के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

i. घरेलू उद्योग का आधार संदिग्ध है और नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

ii. जहां कई उत्पादक काम करते हैं, आवेदक को स्पष्ट और सत्यापन योग्य साक्ष्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व सिद्ध करना चाहिए, जो इस मामले में नहीं है।

iii. पिछली जांचें या ऐतिहासिक स्तर संगत अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन के समकालीन मूल्यांकन का विकल्प नहीं हो सकता है।

iv. नियम 5(3) जांच की शुरुआत के स्तर पर आधार सिद्ध करने के लिए अनिवार्य उत्पादन सीमा निर्धारित करता है। आवेदक इन सीमाओं का अनुपालन दर्शाने या अन्य घरेलू उत्पादकों से अपेक्षित समर्थन दर्शाने में विफल रहा है।

v. आवेदक ने स्वीकार किया है कि अन्य उत्पादक, अर्थात् बीपीसीएल ने जांच की अवधि के दौरान 28,000 एमटी संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में कुल ऑक्सी-

अल्कोहल उत्पादन 51,489 एमटी दिखाया गया है, जिसमें से लगभग 36,000 एमटी 2-एथिल हेक्सेनॉल से संबंधित है, जिससे जांच की अवधि के दौरान एनबीए के लिए केवल लगभग 15,000 एमटी ही उत्तरदायी है।

vi. ईसी - फास्टनरों (चीन) के मामले में डब्ल्यूटीओ के निर्णय का संदर्भ लिया जाता है, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का एनबीए का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का केवल 35% है। यह हिस्सा कम उत्पादन है और घरेलू उत्पादन का "प्रमुख उत्पादन" नहीं दर्शाता है। तदनुसार, एपीसीएल को वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं माना जा सकता है।

vii. डीजीटीआर मैनुअल में उल्लेख है कि निर्णायक समीक्षा जांच में, घरेलू उद्योग के आधार का परीक्षण को नए सिरे से लागू किया जाना है। प्राधिकारी को अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक "घरेलू उद्योग" और आधार के मानदंडों को पूरा करता है और अप्रमाणित दावों पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. वर्तमान आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ii. पिछली जांच में, आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक था। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने हाल ही में अपना संयंत्र स्थापित किया और अप्रैल 2021 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

iii. आवेदक ने बीपीसीएल को पत्र भेजा था, लेकिन बीपीसीएल ने आवेदक को उत्तर नहीं दिया है। आवेदक ने वर्तमान जांच में बीपीसीएल को तटस्थ माना है।

iv. आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वह भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है।

v. यह आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, यह अनुरोध है कि नियम 5(3) (क) में यह अपेक्षित है कि आवेदन-पत्र का कुल भारतीय उत्पादन में कम से कम 25% का उत्पादन करने वाले उत्पादकों द्वारा समर्थन किया जाए।

vi. 50% के लिए अगली शर्त उन मामलों के लिए है जहां अन्य भारतीय उत्पादकों ने या तो आवेदन-पत्र का समर्थन किया है या विरोध किया है।

vii. वर्तमान मामले में, बीपीसीएल ने आवेदन-पत्र का समर्थन या विरोध नहीं किया है और तटस्थ बना हुआ है। चूंकि किसी भी घरेलू उत्पादक की ओर से कोई

विरोध नहीं है, इसलिए उन लोगों के समर्थन की 50% आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है जो व्यक्त करते हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *" (ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

21. वर्तमान आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। मूल और बाद की पहली निर्णायक समीक्षा जांच में, आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भारत में इसी समान वस्तु का एकमात्र निर्माता था। अप्रैल 2021 में, एक अन्य उत्पादक, अर्थात् भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने 38,000 एमटी की क्षमता के साथ भारत में नॉर्मल ब्यूटानॉल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, इसने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से इसके उत्पादन, आवेदन-पत्र के संबंध में इसकी स्थिति और अन्य संगत विवरणों के बारे में सूचना मांगी है। तथापि, बीपीसीएल ने न तो अनुरोध की गई सूचना प्रस्तुत की है और न ही आवेदन-पत्र पर अपनी स्थिति बताई है।

23. आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में [***] हिस्सा है और इसलिए, नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनाता है। इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने नियमावली के नियम 5(3) के तहत अपेक्षित जांच के बिना घरेलू उद्योग के आधार को स्वीकार करके कानून का गलत उपयोग किया है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है जिसमें पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग की गई है न की मूल जांच की। नियमावली

में मूल जांच में पात्र घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक को पात्र माने जाने पर समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग के आधार की पुन: जांच अनिवार्य नहीं है।

24. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वह न तो संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबद्ध है और न ही भारत में उत्पाद के किसी आयातक से। डीजी सिस्टम आंकड़ों की जांच की गई है, और यह पाया गया है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

25 उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 23(1) के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. <u>विविध मुद्दे और गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए है:

i. घरेलू उद्योग ने एक दशक से अधिक समय तक पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठाया है। शुल्क से तथाकथित पाटन यदि कोई है, पहले ही हल हो गया है।

ii. बीपीसीएल, जिसकी उत्पादन क्षमता काफी हद तक कैप्टिव है, प्रतिनिधित्व के किसी भी आकलन को और विकृत करता है। आवेदन-पत्र प्रत्येक उत्पादक की उत्पादन मात्रा या बाजार हिस्सेदारी का प्रकटन नहीं करता है, जिससे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सत्यापन रुक जाता है।

iii. घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने की शर्त को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है, जबकि जांच प्राधिकारी ने संबंधित तथ्यों की उचित और पर्याप्त जांच नहीं की है।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए है:

i. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क लंबे समय से लागू हैं, पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी और जारी रहने मात्र का यह अर्थ नहीं है कि पाटन रुक गया है या कोई क्षति अब नहीं है। इसके विपरीत, संबद्ध देशों से पाटन वर्तमान जांच में जारी रहा।

ii. न तो सीमा प्रशुल्क अधिनियम और न ही पाटनरोधी नियमावली घरेलू उद्योग को उचित व्यापार उपचारात्मक उपायों के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जाने से रोक सकती है, जब भी घरेलू उद्योग को अनुचित आयातों से क्षति हो।

iii. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिका प्रत्येक अलग अलग उत्पादक के उत्पादन की मात्रा या बाजार हिस्सेदारी का प्रकटन करने में विफल रहती है, यह अनुरोध है कि व्यापार सूचना सं 10/2018 में उत्पादक-वार उत्पादन आंकड़े या अलग अलग बाजार हिस्सेदारी के आंकड़े प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

iv. घरेलू उद्योग ने बीपीसीएल के वास्तविक उत्पादन और घरेलू उद्योग के उत्पादन और बाजार हिस्सेदारी सहित सभी संगत सूचना का प्रकटन किया है, जिससे व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का पूरी तरह से अनुपालन होता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर व्यापार सूचना 01/2020 के साथ पठित नियम 6(7) और व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अनुसार, को अगली सूचना तक (प्राधिकारी द्वारा बढ़ाए गए अनुसार) सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

29. घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने की सीमा तक जांच की गई और तदनुसार हल किया गया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, सूचना से संबंधित उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता नाम आदि जैसी सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा जाता है कि जहां कहीं भी क्षति की अवधि के लिए सूचना है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना रेंज में प्रकट की गई है।

30. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं के गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का प्रकटन नहीं किया है, वहां उन्हें गोपनीय बताया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि ये दस्तावेज सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं और यह कारण नहीं बताया है कि वे सार क्यों संभव नहीं है।

31. प्राधिकारी ने सभी जांचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सूचना और दस्तावेजों के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के लिए निरंतर अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और वह सूचना गोपनीय मानी गई है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का आदतन रूप से प्रयोक्ता है, यह देखा जाता है कि धारा 9(क)(5) के अनुसार, इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि घरेलू उद्योग कितनी बार विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों के समाधान की मांग कर सकता है और इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क कितने बार लगाए जा सकते हैं। पाटनरोधी जांच में प्राथमिक अनिवार्यता यह हल करने की है कि क्या उपचारात्मक उपाय पाटित आयातों और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के आलोक में अपेक्षित हैं। पाटनरोधी शुल्क पाटन और क्षति का सामना करने के लिए जब तक आवश्यक हों, तब तक की अवधि के लिए लगाए जा सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिशें केवल जांच के बाद और अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी की जाती हैं।

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है और प्राधिकारी ने तथ्यों की उपयुक्त जांच नहीं की है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त सूचना दी है और जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा यह संतुष्ट होने के बाद की गई थी कि जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य था।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. मलेशिया के उत्पादकों का सामान्य मूल्य, प्राधिकारी को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने प्रतिभागी उत्पादकों के सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो;

(ख) अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

37. प्रश्नावली को संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजा गया था, जिसमें उन्हें निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई थी। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में उनकी संबद्ध कंपनियों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

i. मलेशिया में बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी और भारत में इसके संबद्ध आयातक।
ii. पीसी डेरिवेटिव एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
iii. पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड, मलेशिया

38. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

च.3.1 <u>मलेशिया के लिए समान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड (उत्पादक) और पीसी डेरिवेटिव एसडीएन बीएचडी (निर्यातक)

i. सामान्य मूल्य

39. जांच की अवधि के दौरान, पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड (जिसे इसके बाद "पेट्रोनास मार्केटिंग" कहा गया है), जो मलेशिया में संबद्ध सामानों का व्यापारी/ निर्यातक है, ने अपने घरेलू बाजार में *** अम.डॉलर बीजक मूल्य के *** एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं। घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों से तुलना करने पर पर्याप्त मात्रा में है।

40. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की है। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन पर विचार किया जाता है और यदि लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान जांच में, चूंकि लाभ कमाने वाली बिक्री 80% से अधिक है, सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। पेट्रोनास मार्केटिंग ने सामान्य मूल्य की गणना में अंतर्देशीय माल भाड़ा, पैकिंग खर्च और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. निर्यात कीमत

41. जांच की अवधि के दौरान, पीसी डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ने संबद्ध निर्यातक पेट्रोनास मार्केटिंग लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध सामानों के *** एमटी का निर्यात किया है।

पीसी डेरिवेटिव्स → पेट्रोनास मार्केटिंग→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

42. संबद्ध निर्यातक के माध्यम से बिक्री के मामले में, संबंधित निर्यातक की निर्यात कीमत को उचित समायोजन के बाद निर्धारित किया गया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है और सत्यापन के बाद इसे अनुमति दी गई है।

43. इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीडीएच, मलेशिया

i. सामान्य मूल्य

44. जांच की अवधि के दौरान, बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी. (जिसे आगे "बीएएसएफ" कहा गया गया है), जो मलेशिया में संबद्ध सामानों का उत्पादक है, की जांच की अवधि में कोई घरेलू बिक्री नहीं है।

45. वर्तमान जांच में बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन द्वारा कोई घरेलू बिक्री नहीं की गई है। इस तथ्य के आधार पर कि प्रश्नावली के उत्तर में अपेक्षित अन्य संगत सूचना उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई है, प्राधिकारी ने उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक के लिए उनके उत्पादन लागत के आधार पर उचित बिक्री और प्रशासन व्यय के साथ संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत और लाभ मार्जिन को जोड़कर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इस प्रकार प्राप्त सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. निर्यात कीमत

46. जांच की अवधि के दौरान, बीएएसएफ ने बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों के *** एमटी का निर्यात किया है।

बीएएसएफ → बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

47. संबद्ध आयातक के माध्यम से बिक्री के मामले में, उचित समायोजन के बाद संबद्ध आयातक के पुनर्विक्रय मूल्य के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उत्पादक/ निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है और सत्यापन के बाद इसे अनुमति दी गई है।

48. इस प्रकार प्राप्त निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

49. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में सहयोग नहीं किया है। इसके मद्देनज़र, मलेशिया के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.2 <u>दक्षिण अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

50. दक्षिण अफ्रीका के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। सामान्य मूल्य उचित लाभ मार्जिन के साथ, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए समायोजित, संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

51. निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके लिए, डीजी सिस्टम आंकड़ों में प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह से संबंधित खर्च, बीमा, क्रेडिट लागत और पैकिंग खर्चों के आधार पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मूल्य समायोजन किया गया है। इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.3 <u>संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

52. संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। सामान्य मूल्य उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए समायोजित संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

53. निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके लिए, डीजी सिस्टम आंकड़ों में प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह संबंधी खर्चों, बीमा, क्रेडिट लागत और पैकिंग व्यय के निमित कीमत समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.4 पाटन मार्जिन

54. जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएसडा./एमटी)	(यूएसडा./एमटी)	(यूएसडा./एमटी)	%	रेंज
क	**मलेशिया**					
1	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएसचडी	***	***	***	***	0-10
2	पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
3	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20
ख	**दक्षिण अफ्रीका**	***	***	***	***	20-30
ग	**यूएसए**	***	***	***	***	20-30

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

55. **क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:**

i. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उत्पाद के आयात के कारण नहीं है। क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से आयात में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है।

ii. मलेशिया से आयात में बाज़ार की स्थितियों और घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता के अनुसार उतार-चढ़ाव आया। जांच अवधि में आयात आमतौर पर आधार वर्ष के स्तर पर ही है। यह पैटर्न पूर्ण रूप से कोई लगातार या खास बढ़ोतरी नहीं दिखाता है।

iii. कुल आयात में मलेशिया के आयात का हिस्सा कम हुआ है। इस प्रकार, संबद्ध आयात अपना हिस्सा खो रहे है, बढ़ नहीं रहे है। गैर-संबद्ध देशों के आयात में भारी बढ़ोतरी इस बात को और साबित करती है कि बाज़ार की स्थितियों में कोई भी बदलाव कुल आयात पर निर्भरता और वैश्विक आपूर्ति पैटर्न के कारण है, न कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण।

iv. घरेलू उद्योग का उत्पादन कम हुआ है। जैसा कि वार्षिक रिपोर्टों में बताया गया है, यह कमी संयंत्र बंद होने और फीडस्टॉक आपूर्ति की समस्याओं के कारण थी। उत्पादन के अनुपात में आयात में बढ़ोतरी घरेलू उत्पादन में कमी के कारण है, न कि मलेशिया से आयात में किसी खास बढ़ोतरी के कारण।

v. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तथापि, उत्पादन और क्षमता उपयोग में उतार-चढ़ाव देखा गया है।

vi. 2022-23 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी सीधे तौर पर घरेलू उद्योग को हुई आंतरिक प्रचालनात्मक बाधाओं से जुड़ी है, न कि आयात से।

vii. क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की भारतीय मांग में 60% की भारी बढ़ोतरी हुई। 3,30,000 एमटी की मांग के मुकाबले घरेलू उत्पादकों के पास 80,000 एमटी की क्षमता है। इसलिए, आयात केवल मांग-आपूर्ति के अंतराल को पूरा कर रहा है और इसे मात्रात्मक क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

viii. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमतों की तुलना, विचाराधीन देशों से आयात के कारण कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण के किसी भी निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती है।

ix. यद्यपि, लागत और बिक्री कीमत के बीच अंतराल है, लेकिन इसका कारण फीडस्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आंतरिक लागत कारक हैं, न कि आयात। इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अंतराल को आयात के कारण कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण नहीं माना जा सकता।

x. 2022-23 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आंतरिक प्रचालनात्मक व्यवधानों के कारण है, न कि आयातों के कारण। घरेलू उद्योग की 41-दिवसीय रखरखाव बंदी और एचपीसीएल से अपर्याप्त प्रोपलीन आपूर्ति से वास्तविक रूप से उत्पादन में बाधा आई।

xi. यह तथ्य कि 2023-24 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ, जब ये आंतरिक बाधाएँ कम हुईं, यह दर्शाता है कि पहले की गिरावट आयात के कारण नहीं, बल्कि अस्थायी परिचालन समस्याओं के कारण थी। घरेलू बिक्री की मात्रा भी यही पैटर्न दिखाती है।

xii. 2022-23 में 41-दिनों के रखरखाव बंदी और एचपीसीएल से प्रोपलीन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण लाभप्रदता में भारी गिरावट आई, और उसके बाद भी यह कमजोर बनी रही।

xiii. जांच अवधि में निष्पादन में गिरावट क्षमता उपयोग, उच्चतर ब्याज लागत, अकेले आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का अभाव, वैश्विक कीमत अस्थिरता, प्रदर्शन और विशेष रूप से बीपीसीएल से भारी घरेलू प्रतिस्पर्धा के अनुरूप हुए बिना बिना मूल्यह्रास लागत में वृद्धि के कारण है।

xiv. आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में प्रचालनात्मक मार्जिन में कम उत्पाद स्टॉक फैलाव के कारण गिरावट आई। जिसके बाद वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही से आंशिक रूप से उभरने के साथ कमजोर वैश्विक मांग के बीच उत्पाद कीमतों में गिरावट आई। मार्जिन निरंतर वैश्विक मांग की कमी के कारण सुभेद्य रही।

xv. आईसीआरए ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अनुपस्थिति, वैश्विक कीमत अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता, शुल्क संरचनाओं और व्यापार संरक्षण उपायों में बदलाव, तथा आयात और घरेलू उत्पादकों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धी चुनौतियों को भी रेखांकित किया है। इन कारकों ने आवेदक की वाणिज्यिक संरचना को प्रभावित किया है।

xvi. बिक्री लागत में वृद्धि सीधे तौर पर फीडस्टॉक की कीमतों में होने वाली अस्थिरता से जुड़ी है, अर्थात् वैश्विक कच्चे तेल और प्रोपलीन की कीमतें। फीडस्टॉक की कीमतों में होने वाले ये वैश्विक उतार-चढ़ाव घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों, दोनों को प्रभावित करते हैं।

xvii. घरेलू बिक्री कीमतों में आई गिरावट को, विचाराधीन उत्पाद की चक्रीय मांग की स्थितियों और घरेलू उद्योग के आंतरिक कीमत-निर्धारण निर्णयों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। घरेलू उत्पादक ने बाजार की स्थितियों और लागत के दबावों के उत्तर में कीमतों को समायोजित किया है, न कि आयात से मिलने वाली कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण।

xviii. घरेलू उद्योग एक एकल विनिर्माता है, जिसका अपस्ट्रीम फीडस्टॉक के उत्पादन में कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। यह स्थिति इसे वैश्विक कच्चे तेल और प्रोपलीन की कीमतों में होने वाली अस्थिरता के प्रति तथा तीसरे पक्षकार के आपूर्तिकर्ताओं से होने वाली आपूर्ति-बाधाओं के प्रति सुभेद्य बना देती है।

xix. बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अभाव के परिणामस्वरूप, एकीकृत उत्पादकों की तुलना में इनपुट लागतें अधिक और अधिक अस्थिर होती हैं। यह संरचनात्मक हानि मार्जिन और लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है, और इसका श्रेय आयात को नहीं दिया जा सकता।

xx. उच्च वित्तीय लागतें निवल लाभप्रदता को प्रभावित करती हैं, और इनका आयात से कोई लेना-देना नहीं होता। बंदी की प्रकृति में परिचालन-संबंधी होते हैं, और इनका आयात की मात्रा या कीमतों से कोई संबंध नहीं होता।

xxi. पूर्ण रूप से देखें तो, क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से आयात की मात्रा मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही है। आधार वर्ष में आयात 10,310 एमटी था और जांच की अवधि में बढ़कर 15,267 एमटी हो गया। यह परिवर्तन मात्रा में किसी उछाल या असामान्य वृद्धि को नहीं दर्शाता है।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

56. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से नए उत्पादकों को प्रोत्साहन मिला। बीपीसीएल ने नॉर्मल ब्यूटानॉल और अन्य ऑक्सो-अल्कोहल के लिए एक संयंत्र स्थापित किया और अप्रैल 2021 में 38,000 एमटी की स्थापित क्षमता के साथ इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

ii आईओसीएल ने जांच अवधि के बाद, अपनी गुजरात रिफाइनरी में 90,000 एमटी प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता वाला एक नॉर्मल ब्यूटानॉल संयंत्र चालू किया। इस क्षमता का कुछ हिस्सा कंपनी अपने इस्तेमाल के लिए रखती है; आईओसीएल घरेलू बाज़ार को भी आपूर्ति कर रही है, लेकिन लगातार पाटन के कारण उसे अपना उत्पादन कम करना पड़ा है।

iii. शुल्क लागू होने के बावजूद, संबद्ध देशों के उत्पादक भारतीय बाज़ार में इस उत्पाद का पाटन जारी रखे हुए हैं।

iv. घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का मुख्य कारण संबद्ध देशों, साथ ही ताइवान और सऊदी अरब से होने वाला आयात है।

v. 2021-22 में, संबद्ध देशों से आयात की कीमतें आवेदक की बिक्री लागत से अधिक थीं। तथापि, 2022-23 में आयात की कीमतें आवेदक की बिक्री लागत से नीचे गिर गईं और शेष पूरी क्षति अवधि के दौरान लागत से नीचे ही बनी रहीं।

vi. नॉर्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन के लिए सिंगैस, नेफ्था और प्रोपलीन मुख्य कच्चा माल हैं, जिनकी कुल लागत में 90% से अधिक की हिस्सेदारी है। कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के बावजूद, आयात की कीमतों में गिरावट आई है।

vii. संबद्ध देशों से होने वाले आयात की मात्रा 2022-23 में बढ़ी, और 2023-24 में इसमें और भी तेज़ी से वृद्धि हुई। तथापि, जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात की मात्रा में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

viii. जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात में आई गिरावट का मुख्य कारण ताइवान और सऊदी अरब से होने वाले पाटित आयातों में हुई भारी वृद्धि थी।

ix. उत्पादन के संदर्भ में, संबद्ध देशों से होने वाले आयात की मात्रा 45% से बढ़कर 94% हो गई, वहीं खपत के संदर्भ में यह 26% से बढ़कर 36% हो गई।

x. संबद्ध देशों से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है।

xi. पाटित आयातों के कारण आवेदक अपनी बिक्री लागत के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में बदलाव नहीं कर पाया है। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास कर रहे हैं।

xii. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही।

xiii. 2022-23 में आंशिक संयंत्र बंद होने और आयात बढ़ने के कारण उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई, 2023-24 में इसमें मामूली सुधार हुआ, और जांच की अवधि के दौरान संयंत्र बंद होने तथा कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण इसमें फिर से गिरावट आ गई।

xiv. कच्चे माल की अस्थायी अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में कुछ हानि हुई; पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक नहीं था जिसने इष्टतम क्षमता उपयोग को रोका हो।

xv. 2022-23 में घरेलू बिक्री में गिरावट आई, उसके बाद इसमें मामूली वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें फिर से भारी गिरावट आ गई। अपने उत्पादन का 90% से अधिक बेचने के बावजूद, घरेलू उद्योग को कीमतों में काफी कमी करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री राजस्व में गिरावट आई।

xvi. जांच की अवधि के दौरान आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत से कम थी। चूंकि घरेलू उद्योग कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करता है, इसलिए उसे आयात कीमतों के बराबर कीमत रखने और परिवर्तनीय लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे लागत की वसूली नहीं हो पाई और उसे स्वेच्छा से उत्पादन रोकने करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xvii. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों से संयंत्र बंद रहने के दिनों की संख्या और उत्पादन में होने वाली क्षति में वृद्धि हुई है।

xviii. कच्चे माल की कमी के कारण संयंत्र बंद होने और रखरखाव के लिए संयंत्र बंद होने को छोड़कर, उत्पादन में आने वाली अन्य सभी रुकावटें पाटन के कारण उत्पन्न हुई प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण थीं।

xix. पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता और मजबूत घरेलू मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग को केवल पाटित आयातों के कारण उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xx. नॉर्मल ब्यूटानॉल और 2-एथिल हेक्सानॉल, दोनों के लिए एक ही आपूर्तिकर्ता और भंडारण सुविधा से प्राप्त होने वाले एक ही प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। क्षति की अवधि के दौरान, जब नॉर्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन *** दिनों के लिए रोक दिया गया था, तब भी घरेलू उद्योग ने [***] दिनों तक 2-एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन किया।

xxi. उत्पादन को 2-एथिल हेक्सानॉल में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि यह 2023-24 तक लाभप्रद रहा, नॉर्मल ब्यूटानॉल के विपरीत, जिसमें लगातार हानि हो रही थी।

xxii. घरेलू उद्योग प्रोपलीन सिर्फ एचपीसीएल से लेता है। प्रोपलीन का आसानी से व्यापार नहीं किया जा सकता, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन रोकने से एचपीसीएल की बिक्री पर सीधा असर पड़ता है। एचपीसीएल की बिक्री में कुछ हद तक रखरखाव और कुछ हद तक घरेलू उद्योग द्वारा नॉर्मल ब्यूटानॉल और 2-एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन कम होने की वजह से गिरावट आई।

xxiii. घरेलू उद्योग के पास काफी प्रोपलीन स्टॉक था, फिर भी उसने नॉर्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन न करने का फैसला किया, जबकि 2-एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन जारी रखा।

xxiv. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जबकि उत्पादन का 90% से ज्यादा बेचा गया और बाजार मांग से कम पर काम किया गया। करीब 100 दिनों तक, मालसूची पांच दिनों की मांग पूरी करने के लिए काफी थी, इसलिए, ज्यादा स्टॉक माल-आपूर्ति अंतराल के कारण नहीं था।

xxv. क्षति की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों से निरंतर उनके बाजार हिस्से में वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई।

xxvi. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग लाभप्रद था, लेकिन पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि में उसे लगातार हानि हुई। कुछ समय के लिए कच्चे माल की कमी को ध्यान में रखने के बाद भी, हानि जारी रही।

xxvii. घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

xxviii. मूल जांच के बाद से मुख्य कच्चे माल और एनबीए की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है और आयात कीमत भी बढ़ी है।

xxix. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक निष्पादन में गिरावट उसकी अपनी प्रचालनात्मक अदक्षताओं, कच्चे माल की कथित गैर-मौजूदगी और बार-बार

बंदी के कारण है, गलत है, और इसका मुख्य कारण घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर पाटित आयातों का लगातार मौजूद रहना था।

xxx. घरेलू उद्योग को उत्पाद को परिवर्ती लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वित्तीय हानिया हुईं, और इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद कई अवधियों में उत्पादन रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

xxxi. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि नॉर्मल ब्यूटानॉल और 2-एथिल हेक्सेनॉल में एक ही कच्चा माल इस्तेमाल होता है, जिसे एक ही आपूर्तिकर्ता से खरीदा जाता है। क्षति अवधि के दौरान, एनबीए संयंत्र [***] दिनों तक प्रचालन में नहीं था, जबकि 2-ईएच संयंत्र केवल [***] दिनों तक प्रचालन में नहीं था।

xxxii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आयात सिर्फ़ मांग-आपूर्ति अंतरालप को पूरा कर रहे थे, तथ्यात्मक रूप से गलत है; मांग और आपूर्ति-अंतराल [***] एमटी तक है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान वास्तविक पाटित आयात संबद्ध देशों और नए पाटन करने वाले देशों से [***] एमटी था।

xxxiii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि 2022-23 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आंतरिक प्रचालनात्मक व्यवधानों के कारण है, तथापि, घरेलू उद्योग रखरखाव या कच्ची सामग्री की कमी के कारण उस अवधि से बहुत अधिक दिनों तक बेकार रहा।

xxxiv. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बंदी और कच्चे माल की कमी के कारण गिरावट आई, भ्रामक है, जबकि कमी का एक हिस्सा एचपीसीएल के रखरखाव बंदी के कारण था, यह गिरावट काफी हद तक घरेलू उद्योग द्वारा एनबीए और 2-एथिल हेक्सानॉल के उत्पादन में कमी की वजह से है।

xxxv. मूल्यह्रास और ब्याज में वृद्धि संबंधी अनुरोध के संबंध में घरेलू उद्योग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ नए उपकरण संस्थापित कर कुछ पूंजीगत व्यय किया।

xxxvi. इस अनुरोध के संबंध में कि ब्याज लागत में वृद्धि से क्षति हुई, जबकि ब्याज लागतें 2022-23 में बढ़ी और जांच की अवधि में आंशिक रूप से बढ़ी, लाभप्रदता में गिरावट इन लागतों में वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक है।

xxxvii. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति अकेले कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता और बैकवर्ड इंटिग्रेशन की कमी के कारण हुए, तथापि, निर्यातकों ने लागत में कमी की अपेक्षा अपनी कीमतें अधिक कम की हैं।

घरेलू उद्योग केवल जांच की अवधि में एचपीसीएल से कच्ची सामग्री नहीं ले रहा है बल्कि पिछले वर्षों में भी लेता आया है।

xxxviii. इस अनुरोध के संबंध में कि बीपीसीएल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि बीपीसलएल ने 2021-22 में उत्पादन शुरू किया था और घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभप्रद था। यदि बीपीसीएल द्वारा उत्पादन शुरू करना क्षति का कारण होता, तो घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में ही हानियां हुई होती।

xxxix. वार्षिक रिपोर्ट में विवरणों के संबंध में, आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन में गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय ऑक्सो-अल्कोहल की कीमतों में गिरावट को भी बताया है, जिससे पता चलता है कि यह आयात की कीमत है जो कीमतों पर असर डाल रही है।

xl. आईसीआरए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में, अगस्त 2025 की आईसीआरए रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रचालनात्मक मार्जिन पर असर पड़ा और वित्त वर्ष 2025 तथा वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में वित्त वर्ष 2024 में 10.7% से नकारात्मक स्तरों तक गिरावट आई, जैसा कि सस्ते आयातों के कारण उत्पाद कीमतों कमी से गिरावट आई।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में " .....*पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों के उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए.....*" घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा,

मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

58. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति बाजार संचालित कारकों की तुलना में ब्याज और मूल्यह्रास लागत में असामान्य वृद्धि के कारण हुई है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसकी विनिर्माण सुविधा 1990 के दशक के अंत में स्थापित की गई थी और आधार वर्ष के दौरान संयंत्र और मशीनरी का काफी हद तक मूल्यह्रास हो चुका था, जिसके परिणामस्वरूप आधार वर्ष में अपेक्षाकृत कम मूल्यह्रास लागत आई थी। घरेलू उद्योग ने 2022-23 में तीन नई मशीनों को जोड़ा है, जिससे मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है। यह देखा जाता है कि इस तरह का पूंजीगत व्यय या निवेश परिचालन दक्षता के लिए एक सामान्य व्यावसायिक निर्णय है। यह देखा गया है कि वृद्धि के बाद भी, उत्पाद के लिए जिम्मेदार मूल्यह्रास और ब्याज लागत बिक्री की कुल लागत का 1% से कम है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को भारी हानियां हुई हैं। जांच की अवधि के दौरान मूल्यह्रास और ब्याज लागत में मामूली वृद्धि के बावजूद, इसी अवधि के दौरान लाभप्रदता में गिरावट इन लागतों में वृद्धि से काफी अधिक है।

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग केवल एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर है, जिसने इसके संचालन को प्रभावित किया है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग न केवल जांच की अवधि में बल्कि पिछले वर्षों में भी एचपीसीएल से अपने कच्चे माल की खरीद कर रहा था। यदि एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता ने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया होता, तो उसे अतीत में भी नुकसान उठाना पड़ता। यह भी देखा जाता है कि अन्य उत्पादक का संयंत्र घरेलू उद्योग के निकटवर्ती परिसर में स्थित है, और इसलिए, कच्चे माल की लागत से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में, प्रोपलीन की कमी, एकल आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय ऑक्सी-अल्कोहल में गिरावट आदि जैसे कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह देखा गया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चीन में एक्स-रे उपकरण पर डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें पैनल ने माना कि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक की पहचान करता है जिससे क्षति होती है लेकिन यह साक्ष्य नहीं देता है कि यह कारक घरेलू उद्योग को कैसे क्षति पहुंचा रहा है, जांच प्राधिकारी को उस कारक के संबंध में निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में, हितबद्ध

पक्षकारों ने केवल सामान्य विवरण दिए हैं। तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग पूर्व में लाभदायक था और जांच की अवधि में ही क्षति उठा रहा है, यह दर्शाता है कि अन्य कारक क्षति का कारण नहीं हो सकते हैं।

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में, बीपीसीएल द्वारा उत्पादन की शुरुआत ने घरेलू प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया है और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि बीपीसीएल ने 2021 में घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन शुरू किया था। बीपीसीएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के बावजूद घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ दर्ज किया। यदि बीपीसीएल द्वारा उत्पादन की शुरुआत क्षति का कारण होती, तो घरेलू उद्योग को बाजार में बीपीसीएल के प्रवेश पर तत्काल हानि होती। यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने लाभ दर्ज किया जब आयात की पहुंच कीमत बिक्री की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी अधिक रही और जैसे ही पहुंच कीमत लागत और बिक्री कीमत से नीचे गिर गई, आधार में लाभ निवेश पर नकारात्मक आय के साथ नुकसान में बदल गया।

62. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट कच्चे माल की कमी के कारण है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वे भी उसी कच्चे माल का उपयोग करके 2-एथिल हेक्सेनॉल का उत्पादन करते हैं। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के पास कच्चे माल का पर्याप्त भंडार था। कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद, घरेलू उद्योग ने नार्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन नहीं किया, यहां तक कि जब 2-एथिल हेक्सेनॉल का उत्पादन किया जा रहा था। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से प्राप्त पत्र को रिकॉर्ड में रखा गया है, जिससे पता चलता है कि आपूर्तिकर्ता ने अपना उत्पादन जारी रखा और घरेलू उद्योग से बार-बार कच्चे माल को उठाने के लिए कहा, जब घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद था। घरेलू उद्योग विशेष रूप से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) से एक समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से प्रोपलीन की खरीद करता है। एचपीसीएल मुख्य रूप से घरेलू उद्योग को प्रोपलीन की आपूर्ति करता है, क्योंकि प्रोपलीन आसानी से व्यापार योग्य वस्तु नहीं है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में निलंबन या कमी समान रूप से एचपीसीएल के प्रोपलीन की बिक्री को प्रभावित करती है। अत:, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट कच्चे माल की कमी के कारण नहीं है, बल्कि कम कीमत वाले संबद्ध आयात के कारण है।

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आईसीआरए रिपोर्ट के अनुसार, कमजोर वैश्विक मांग के बीच उत्पाद की कीमतों में गिरावट के बाद कम

स्प्रेड के कारण वित्त वर्ष 2023 में घरेलू उद्योग के परिचालन मार्जिन में गिरावट आई और यह कि मार्जिन कमजोर बने हुए हैं। इन कारकों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह यह नोट किया जाता है कि हालांकि रिपोर्टों में उत्पाद की कीमतों और फीडस्टॉक लागत के बीच फैलाव में उतार-चढ़ाव के लिए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के जोखिम को स्वीकार किया गया है, रिपोर्टों में यह माना गया है कि मार्जिन में गिरावट उत्पाद की कीमतों में गिरावट के साथ हुई। रिपोर्ट में मार्जिन को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में आयात से तीव्र प्रतिस्पर्धा की पहचान की गई है, साथ ही वैश्विक मूल्य अस्थिरता और पश्चगामी एकीकरण की अनुपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है। तदनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए इसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को यथा-तथ्यत: हल किया गया है।

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई दे। कुछ मापदंड गिरावट दिखा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दिखा सकते हैं। प्राधिकारी ने सभी क्षति मापदंडों पर विचार किया है और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहती है या बार-बार होती है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से क्षति के मापदंडों की जांच की है।

66. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की भी जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को निम्नलिखित रूप में हल किया है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

67. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से नार्मल ब्यूटानॉल के आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	**18,250**	**23,256**	**41,656**	**39,334**
2	जांचाधीन नए देशों से आयात	एमटी	2,138	9,363	14,337	25,695
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	6,075	0	0	1,674
4	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	82	65
5	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	21,306	26,900	28,400	28,400
6	**कुल मांग**	**एमटी**	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	150	161

68. यह देखा जाता है कि उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि में 60% की वृद्धि हुई है। यह देखा जाता है कि घरेलू समान उत्पाद की मांग तेजी से बढ़ी है जब पाटनरोधी उपाय लागू थे।

ख. पूर्ण और सापेक्षिक रूप से आयात

69. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	18,250	23,256	41,656	39,334
2	जांचाधीन नए देशों से आयात	एमटी	2,138	9,364	14,337	25,695
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	6,075	0	0	1,674

	भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	कुल खपत	एमटी	***	***	***	***
3	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	214	207
ख	भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	152	133
क	कुल आयात	%	69%	71%	74%	59%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	86

70. यह देखा जाता है कि:

i. वर्ष 2022-23 में इन देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई और वर्ष 2023-24 में इसमें और वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में इसमें मामूली गिरावट आई। कुल मिलाकर, जांच की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई है।

ii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में मामूली गिरावट जांचाधीन नए देशों से आयात में वृद्धि के कारण है।

iii. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में [***] % से बढ़कर जांच की अवधि में [***] % हो गया है।

iv. भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में [***] % से बढ़कर जांच की अवधि में [***] % हो गया है।

71. इस तर्क के संबंध में कि देश में मांग-आपूर्ति अंतराल के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है, यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान उत्पाद की कुल मांग [***] एमटी थी, जबकि भारतीय उत्पादकों की संयुक्त संस्थापित क्षमता [***] एमटी थी, जिसके परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति अंतराल [***] एमटी था। तथापि, संबद्ध देशों और जांचाधीन नए देशों से आयात की वास्तविक मात्रा [***] एमटी थी, जो माँग-आपूर्ति अंतराल से काफी अधिक है।

छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

72. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे विचार करें कि क्या भारत में

समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या क्या उन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का अन्यथा ह्रास करना है या कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क. कीमत का मूल्यांकन

73. नार्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चा माल नैफ्था और प्रोपलीन हैं और प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में कच्चे माल की लागत और आयात कीमतों की जांच की है। नीचे दी गई तालिका संगत सूचना दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कच्चे माल की कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	102	106
2	सीआईएफ आयात कीमत	रु./एमटी	1,30,801	94,146	79,050	82,926
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	60	63

74. यह देखा जा सकता है कि 2022-23 में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात कीमत में गिरावट आई है। यद्यपि 2023-24 में कच्चे माल की कीमत में गिरावट आई थी, लेकिन संबद्ध देशों से आयात कीमत में भी गिरावट आई है। जब क्षति की अवधि की अवधि में देखा जाए, तो कच्चे माल की कीमतें 6% या रु. [***] प्रति एमटी टन बढ़ गईं, जबकि संबद्ध देशों से आयात कीमत 37 या रु. [***] में गिरावट आई। इसलिए यह स्पष्ट है कि आयात कीमत कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप नहीं बढ़े हैं।

ख. कीमत कटौती

75. जांच की अवधि के लिए आयात की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके कीमत कटौती निर्धारित की गई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देशों से कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र.सं.	संबद्ध देश	निवल बिक्री प्राप्ति	पहुंच कीमत	कीमत कटौती		
		रु./एमटी	रु./एमटी	रु./एमटी	%	रेंज
1	मलेशिया	***	84,965	***	***	0-10%
2	दक्षिण अफ्रीका	***	87,031	***	***	0-10%
3	यूएसए	***	89,484	***	***	0-10%

4	भारित औसत	***	87,102	***	***	0-10%

76. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद को हानियों पर बेचने के बावजूद कीमत कटौती सकारात्मक है।

ग. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई थी:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	107	115
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	70	72
3	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,35,421	97,802	82,718	87,102
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	61	64



78. यह देखा जाता है कि:

i. 2022-23 में, जहां घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 23 सूचकांक से बढ़ गई, वहीं इसकी बिक्री कीमत 22 सूचकांक तक घट गई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में भारी गिरावट आई और हानि में बदल गई।

ii. 2023-24 में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई। तथापि, चूंकि बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत के समान अनुपात में नहीं हुई, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुछ सुधार दिखा, लेकिन घरेलू उद्योग को हानि उठाना जारी रहा।

iii. जांच की अवधि के दौरान, बिक्री की लागत में 9 सूचकांक की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2 सूचकांक तक गिरावट आई। बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई। परिणामस्वरूप, इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की हानियां बहुत बढ़ गई।

iv. आयातों की पहुंच कीमत 2021-22 में बिक्री लागत से अधिक थी, परंतु 2022-23, 2023-24 में इसमें भारी गिरावट आई है और जांच की अवधि में मामूली वृद्धि हुई है। आयात की पहुंच 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में बिक्री लागत से कम है।

v. क्षति की अवधि में, बिक्री लागत में 15% तक वृद्धि हुई, लेकिन बिक्री कीमत में 28% तक गिरावट आई है। अतः, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कम हो जाती है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

79. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

क . उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

80. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	78	71
3	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	78	71
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	82	65

81. यह देखा जाता है:

i. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।

ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2022-23 में गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह गिरावट आंशिक रूप से रखरखाव के प्रयोजनों और गैर-संबद्ध देशों से आयात के लिए घरेलू उद्योग संयंत्र के बंद होने के कारण आंशिक रूप से थी।

iii. चूंकि संयंत्र 2023-24 के दौरान संचालित हुआ, इसलिए उत्पादन और क्षमता उपयोग दोनों में वृद्धि हुई। तथापि, जाँच की अवधि के दौरान, उत्पादन के साथ-साथ क्षमता उपयोग में फिर से गिरावट आई। इस गिरावट का आंशिक कारण कुछ अवधि के लिए संयंत्र का बंद होना और पाटित आयातों में वृद्धि थी।

iv. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री ने उत्पादन की समान प्रवृत्ति अपनाई। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का लगभग 90% बेचने में सक्षम था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसे उत्पाद को हानि पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था।

82. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पाटित आयातों के कारण, इसे क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू उद्योग ने दैनिक उत्पादन रिकॉर्ड प्रदान किया है जो दर्शाता है कि गैर-उत्पादन दिनों की संख्या 2021-22 में [***] दिनों से बढ़कर जांच की अवधि में [***] दिन हो गई है, जिसमें क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन हानि बढ़ गई है।

83. तालिका घरेलू उद्योग द्वारा खोए गए उत्पादन को भी दर्शाती है।

वर्ष	दिनों की संख्या	उत्पादन हानि एमटी में
2021-22	***	***
2022-23	***	***
2023-24	***	***
2024-25	***	***

स्रोत - लिखित अनुरोध

84. घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन केवल 9 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान और रखरखाव बंदी के कारण केवल 21 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 की अवधि के दौरान रुका हुआ था। इन दो सीमित अवधियों के बंद होने को छोड़कर, घरेलू उद्योग के पास कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता थी और उत्पादन करने की प्रचालनात्मक क्षमता थी। इसके बावजूद प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण शेष अवधि के दौरान उत्पादन में कटौती की गई थी। क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन को [***] दिनों के लिए कम कर दिया।

ख. बाजार हिस्सा

85. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों, संबद्ध देशों और अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नलिखित रूप में जांच की है।

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	55	41
2	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	89	83
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	152	135
4	अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	116	206

86. यह देखा जाता है कि:

i. वर्ष 2023-24 तक संबद्ध देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई। जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में आंशिक गिरावट ताइवान और सऊदी अरब (जांचाधीन नए देश) से आयात में तेज वृद्धि के कारण है।

ii. क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई।

iii. जांच की अवधि में आधार वर्ष की तुलना में अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।

iv. समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी में भी क्षति अवधि के दौरान, आधार वर्ष में [***] से घटकर जांच अवधि में [***] तक की गिरावट आई है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

87. लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-13	-7	-13
2	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-9	-6	-8
3	नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-9	-5	-11
4	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-7	-4	-7
5	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-8	-4	-7
6	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-8	-4	-7

88. यह देखा जाता है कि:

i. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ कमा रहा था। लेकिन 2022-23 में संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत में भारी गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग का लाभ काफी कम हो गया और हानियों में बदल गया।

ii. घरेलू उद्योग को 2023-24 में भी हानियां हुई, जो जांच की अवधि में बढ़ गई। पाटित आयातों में वृद्धि के साथ, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ गई।

iii. घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष में रु [***] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रु [***] प्रति एमटी लाभ हानि में बदल गया।

iv. इसी तरह की प्रवृत्ति नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में देखी गई है। क्षति की अवधि में नकद लाभ और पीबीटी दोनों में क्रमशः 90% से अधिक की गिरावट आई है और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है।

v. चूंकि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयात के कारण को हानियां हो रही है, अतः निवेश पर आय तेजी से घट गई, 2022-23 में नकारात्मक हो गई और शेष अवधि के लिए नकारात्मक बनी रही।

घ. मालसूची

89. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	अंतिम माल सूची	एमटी	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	100	193

90. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2022-23 में तेजी से वृद्धि हुई और 2023-24 में गिरावट आई। तथापि, जाँच की अवधि में मालसूची में तेजी से वृद्धि हुई।

91. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मालसूची का सत्यापन किया और नोट करते हैं कि अपने उत्पादन के [***%] से अधिक बेचने के बावजूद, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की अंतिम मालसूची वास्तविक रूप से अधिक है।

92. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह दैनिक औसत खपत से काफी अधिक मालसूची स्तरों के साथ काम कर रहा था जिसे बाजार आसानी ले सकता है। जांच की अवधि के दौरान ही, घरेलू उद्योग ने लगभग [***] दिनों तक मालसूची रखी थी जिसमें मालसूची स्तर [***] एमटी से अधिक था जो 5 दिनों की औसत मांग को पूरा कर सकता था। घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से कम है और ऐसी स्थिति में जहां मांग क्षमता से अधिक है, तो उत्पादक के पास उच्च मालसूची के साथ काम करने का कोई कारण नहीं है। बाजार आसानी से उस सीमा को आसानी से ले सकता है, जिस सीमा तक घरेलू उद्योग दैनिक आधार पर उत्पादन कर रहा है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

93. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	105	101
2	वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	72	91
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	78	71
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	74	71

94. यह नोट जाता है कि कर्मचारियों की संख्या, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2022-23 में गिरावट आई और 2023-24 में वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में फिर से गिरावट आई। 2023-24 तक वेतन और मजदूरी में गिरावट आई, लेकिन जांच की अवधि में फिर से वृद्धि हुई।

च. वृद्धि

95. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री की मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24
1	उत्पादन	वाई/वाई	-28%	8%	-8%
2	क्षमता उपयोग	वाई/वाई	-20.73%	4.06%	-4.49%
3	घरेलू बिक्री	वाई/वाई	-25%	10%	-21%
4	मालसूची	वाई/वाई	39%	-28%	92%
5	प्रति इकाई लाभ	वाई/वाई	-113%	47%	-94%
6	लाभ लाख रु. में	वाई/वाई	-109%	41%	-54%
7	नकद लाभ लाख रु. में	वाई/वाई	-107%	34%	-65%
8	आरओसीई	वाई/वाई	-61%	2%	-1%

96. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सभी कीमत और मात्रा मापदंडों में नकारात्मक रही है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हो रही हैं। देश में मांग-आपूर्ति का अंतराल है, तथापि, वर्तमान निष्पादन नए निवेश को सही नहीं ठहराता है। अत:, पूंजी जुटाने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जो घरेलू उद्योग उसकी क्षमता बढ़ाने से रोक रहा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

98. डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है और उत्पाद को हानियों पर बेचने के लिए मजबूर कर रही है। घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में बदलाव के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा है। फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में निवेश पर नकारात्मक आय के साथ हानियां उठाता रहा। संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयात के कारण आयात का काफी कीमत प्रभाव है। अत: प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं।

झ. पाटन की मात्रा

99. यह देखा जाता है कि बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी (बीएएसएफ) को छोड़कर संबद्ध देशों से भारत में वि संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है।

ज. <u>क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना</u>

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

100. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मलेशिया में पेट्रोनास समूह किसी भी क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है, या यह लागत से कम बेचता है, शुल्क को लेता है, या बाजार के दबावों का सामना करता है जो भारत को निर्यात को मोड़ देगा। पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

ii. मलेशिया से आयात की मात्रा क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही है और जांच की अवधि में लगभग उसी स्तर पर है जैसे आधार वर्ष में, कोई वृद्धि या असामान्य वृद्धि नहीं हुई है।

iii. भारत में आयातों में समग्र वृद्धि संरचनात्मक मांग-आपूर्ति अंतराल से स्पष्ट की गई है, क्योंकि घरेलू क्षमता कुल मांग के केवल एक अंश को पूरा करती है, और संयंत्र की बंदी तथा फीडस्टॉक की कमी के कारण घरेलू उद्योग के सामने आने वाले अस्थायी उत्पादन व्यवधान से पूरी करती है।

iv. भारत में निर्यात को पाटित कीमतों पर भेजने के लिए उच्च क्षमता उपयोग, अतिरिक्त क्षमता की कमी, तीसरे देश के बाजारों में उच्च लाभप्रदता और कुल बिक्री में भारत का आंशिक हिस्से को देखते हुए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

v. अत: भारतीय बाजार बीएएसएफ की वैश्विक बिक्री रणनीति में एक सीमांत भूमिका निभाता है। बीएएसएफ समूह का एनबीए का उत्पादन काफी हद तक कैप्टिव खपत के माध्यम से लिया जाता है, और कई तीसरे देश के बाजारों में निर्यात किया जाता है, इसलिए भारत जैसे किसी विशिष्ट बाजार को पाटित निर्यातों के साथ लक्षित करने की कोई आर्थिक बाध्यता नहीं है।

vi. बीएसएफ की निर्यात संरचना इस स्थिति की पुष्टि करती है। विचाराधीन उत्पाद की कुल बिक्री का केवल लगभग [***] एमटी भारत को निर्यात किया जाता है। इसके विपरीत, [***] बिक्री का एमटी अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। यह विविधीकृत बिक्री पोर्टफोलियो दर्शाता है कि बीएएसएफ उत्पादन स्तर या वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए भारतीय बाजार पर निर्भर नहीं है।

vii. बीएएसएफ समूह कई अन्य बाजारों में लाभदायक कीमतों पर निर्यात करना जारी रखता है। अन्य बाजारों में व्यापार प्रतिबंधों का कोई साक्ष्य नहीं है जो निर्यात को भारत की ओर पुन: भेजने के लिए मजबूर करेगा।

viii. मलेशिया से पाटन जारी रहने या दोबारा होने की कोई संभावना नहीं है और मलेशिया से आयात के कारण घरेलू उद्योग को बार-बार क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। मलेशिया से आयात मात्रा और मूल्य में स्थिर रहे हैं, उचित मूल्य पर हैं, और अतिरिक्त क्षमता या निर्यात संकट से संचालित नहीं हैं।

ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

101. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. शुल्कों के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई।

ii. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग से कहीं अधिक पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता है।

iii. संबद्ध देशों के उत्पादकों का निर्यातोन्मुख अनुपात उच्च है, विशेष रूप से मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए।

iv. अमेरिकी एनबीए उत्पादन क्षमता घरेलू मांग की तुलना में काफी अधिक बनी हुई है, जिसमें संयंत्र कम उपयोग के स्तर पर काम कर रहे हैं।

v. टेक्सास में फॉर्मोसा प्लास्टिक्स द्वारा एक नए 250,000 टन प्रोपलीन संयंत्र के चालू होने से, फीडस्टॉक की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे एनबीए का उत्पादन बढ़ेगा और सामान भारतीय बाजार में आएगा।

vi. अमेरिका और मलेशिया में नॉर्मल ब्यूटानॉल उत्पादक वर्तमान में कमजोर घरेलू मांग, अतिरिक्त आपूर्ति, कम क्षमता उपयोग और अधिशेष उत्पादन का सामना कर रहे हैं। लगातार शुल्क के कारण चीनी बाजार बंद रहने से, यूएसए और मलेशिया के निर्यातक अधिशेष उत्पादन का निपटान करने के लिए वैकल्पिक विदेशी बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर हैं।

vii. संबद्ध देशों के उत्पादक अपने उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा तीसरे देशों को पाटित कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं।

viii. इन तीसरे देश के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार कीमतों से कम कीमत पर है, जो दर्शाता है कि भारत एक उच्च कीमत वाला और आकर्षक बाजार बना हुआ है।

ix. भारतीय बाजार भारत में पाटन के उसके इतिहास के कारण, प्रशुल्क एवं अधिशेष उत्पादन क्षमता के कारण चीन से निर्यात भेजने के कारण संबद्ध देशों के लिए अत्यधिक आकर्षक है।

x. पुराने कीमत स्तरों पर आधारित मौजूदा शुल्क अब पाटन के क्षतिकारक प्रभावों की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त हैं। पाटनरोधी शुल्कों में वृद्धि की आवश्यकता उचित और आवश्यक है।

xi. जांच की अवधि के बाद, संबद्ध आयात की पहुंच कीमतें और गिर गईं। पहुंच कीमत बिक्री की लागत से अधिक गिर गई हैं।

xii. पाटित आयातों ने आवेदक की कीमतों को कम करना जारी रखा, जिससे आवेदक को लागत से नीचे उत्पाद बेचना पड़ा। परिणामस्वरूप, जांच की अवधि के बाद हानियां बढ़ गईं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

102. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों के तहत निर्धारित अपेक्षा पर विचार करते हुए, क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच की है।

103. वर्तमान जांच मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

104. इस तरह के संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध II की धारा (vii) में अन्य बातों के अलावा उन कारकों के लिए प्रावधान है जिन्हें ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, अर्थात

क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर आयात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

ख. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में काफी बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाने वाले निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र निपटान योग्य या आसन्न पर्याप्त वृद्धि।

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और अधिक आयातों के लिए संभावित रूप से मांग बढ़ाएंगे; और

घ. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

105. प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त अपेक्षाओं और अनुवर्ती मापदंडों पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में पाटन की संभावना है, और यदि हां, तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सभी संगत सूचना की जांच की है।

क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन

106. मूल, पहली निर्णायक और वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

क्र.सं.	संबद्ध देश	मूल जांच	प्रथम एसएसआर जांच	वर्तमान जांच
1	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी")	10-15	30-40	0-10
2	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एस डीएन. बीएचडी. (बीएएसएफ)	0-5	0- 10	(0-10)
3	कोई अन्य	15-20	30-40	10-20
3	दक्षिण अफ्रीका	10-15	30-40	20-30
4	यूएसए	20-25	30-40	20-30

107. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटन जारी रहा है। निरंतर पाटन से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निरंतर और बढ़े हुए पाटन की संभावना है क्योंकि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी बना हुआ है।

ख. संबद्ध सामानों के आयात में वृद्धि

108. क्षति की अवधि में आयात की मात्रा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	18,250	23,256	41,656	39,334

109. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात 2022-23 में वृद्धि हुई और 2023-24 में तेजी से बढ़ गया, लेकिन जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई। जांच की अवधि में गिरावट ताइवान और सऊदी अरब से आयात में तीव्र वृद्धि के कारण हुई है। गिरावट के बावजूद, जांच की अवधि में आयात की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में

दोगुनी थी। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित आयातों में वृद्धि उपायों की समाप्ति की स्थिति में आयात में और वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

ग. आयात का संभावित ह्रासमान/न्यूनीकरण प्रभाव

110. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग की आयात कीमत और बिक्री की लागत के बीच तुलना दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	107	115
2	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,35,421	97,802	82,718	87,102
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	74	81
3	अंतर	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-17	-20	-25

111. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 2021-22 को छोड़कर क्षति की अवधि के दौरान पहुंच कीमत से लगातार अधिक रही है। आयात भारतीय बाजार में उस कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। जब आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम होती है, तो यह स्पष्ट है कि उनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

घ. अन्य देशों द्वारा संबद्ध देशों पर लगाया गया शुल्क

112. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) ने दिसंबर 2018 में ताइवान, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के एन-ब्यूटानॉल के आयातों पर यह निष्कर्ष निकालने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाया कि इस तरह के आयातों से चीन में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी। शुल्क पांच साल की अवधि के लिए लगाए गए थे और 2023 में आगे बढ़ाए गए थे, जिनकी दरें ताइवान के लिए 6.0% से 56.1% और मलेशिया के लिए 12.7% से 26% और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 52% से 139% तक थीं। यह देखा जाता है कि एमओएफसीओएम द्वारा लगाए गए शुल्कों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादक भी अन्य बाजारों में संबद्ध उत्पाद को पाटित करने में लगे हुए हैं।

ड. भारत संबद्ध देशों के लिए आकर्षक बाजार है

113. नीचे दी गई तालिका में उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा संबद्ध देशों से तीसरे देशों को किए गए निर्यात और आकर्षक कीमतों पर निर्यात की मात्रा (भारत को कीमत से कम पर निर्यात) दर्शाई गई है।

क्र.सं.	संबद्ध देश	कुल निर्यात एमटी में	आकर्षक निर्यात एमटी में	आकर्षक निर्यात का हिस्सा
1	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी")	***	***	38%
2	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया	***	***	34%
3	यूएसए	31,721	17,244	54%
4	दक्षिण अफ्रीका	1,24,865	82,950	66%
	कुल	2,19,666	1,23,660	56%

स्रोत: मलेशिया, यूएसए और दक्षिण अफ्रीका के लिए निर्यात आवेदक द्वारा दिए गए ट्रेडमैप डेटा के रूप में हैं।

114. यह देखा जाता है कि

i. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के मामले में निर्यात का 34% आकर्षक कीमतों पर हैं

ii. पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड, मलेशिया के मामले में, 38% निर्यात आकर्षक कीमतों पर हैं

iii. दक्षिण अफ्रीका के मामले में, 66% निर्यात आकर्षक कीमतों पर हैं।

iv. संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, 54% निर्यात आकर्षक कीमतों पर हैं।

च. तीसरे देश को क्षतिकारक निर्यात

115. नीचे दी गई तालिका में संबद्ध देशों के उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यात और क्षतिकारी कीमतों पर निर्यातों की मात्रा (क्षतिरहित कीमत से कम निर्यात) दर्शाए गए हैं।

क्र.सं.	संबद्ध देश	कुल निर्यात एमटी में	क्षतिकारक निर्यात एमटी में	क्षतिकारक निर्यात का हिस्सा
1	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स	***	***	75%

	एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी")			
2	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया	***	***	49%
3	यूएसए	31,721	13,747	43%
4	दक्षिण अफ्रीका	1,24,865	69,670	56%

116. यह देखा जाता है कि

i. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के मामले में 49% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हुए

ii. पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड, मलेशिया के मामले में 75% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं।

iv. यूएसए के मामले में, 43% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं।

v. दक्षिण अफ्रीका के मामले में, 56% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं।

झ. <u>कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

117. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के अलावा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण जिम्मेदार न ठहराया जा सके। यद्यपि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या ऐसा होने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया होगा या योगदान देने की संभावना है।

क. <u>तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत</u>

118. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात के अलावा, ताइवान और सऊदी अरब से न्यूनतम स्तर से ऊपर आयात थे। इन आयातों को भी प्रथम दृष्टया पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर पाया गया है। इन आयातों की भी जांच की जा रही है।

ख. <u>मांग में संकुचन</u>

119. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति की अवधि में बढ़ गई है। जांच से पता नहीं चला है कि मांग में गिरावट की संभावना है।

ग. <u>व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां</u>

120. यह देखा जाता है कि कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को हानि हुई हो या होने की संभावना हो।

घ. <u>प्रौद्योगिकी का विकास</u>

121. यह नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की तकनीक में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ड. <u>निर्यात निष्पादन</u>

122. घरेलू उद्योग ने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात नहीं किया है।

च. <u>कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन</u>

123. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य ज्ञात कारक जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, उनकी ऊपर दिए गए गैर-आरोपण विश्लेषण में विधिवत जांच की गई है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है। निम्नलिखित कारक सिद्ध करते हैं कि पाटन के कारण क्षति हुई है।

क. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी. को छोड़कर संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

ख. आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है।

ग. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी है, तथापि आयात कीमत में गिरावट आई है। चूंकि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री

लागत से कम है, इसलिए उन्होंने घरेलू उद्योग को लागत में बदलाव के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है।

घ. कम कीमत वाले आयात के परिणामस्वरूप, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ में काफी गिरावट आई है।

ड. संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई। चूंकि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम है, इसलिए घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है और पाटित आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है।

च. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के साथ, घरेलू बिक्री और उत्पादन में भी गिरावट आई है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

125. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति की अवधि में कच्चे माल और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत निवल अचल परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (पूर्व-कर @ 22%) की अनुमति दी गई थी।

126. विचारधीन उत्पाद के लिए ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत की तुलना की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन %
		(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	%	रेंज
क	**मलेशिया**					
1	बीएएसएफ पेट्रोनास	***	***	***	***	10-20

	केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी.					
2	पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
3	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
ख	दक्षिण अफ्रीका	***	***	***	***	0-10
ग	यूएसए	***	***	***	***	0-10

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

127. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि प्रतिभागी प्रयोक्ताओं के प्रचालन मार्जिन अत्यधिक कम हैं। जहां तक कि इनपुट लागतों में आंशिक वृद्धि का अर्थक्षमता पर गैर-आनुपातिक प्रभाव है।

ii. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के फलस्वरूप लागत में 0.5% से 7% तक की रेंज में वृद्धि होती है। यह लागत वृद्धि निचले स्तर की लाभप्रदता से अधिक है और गहन बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण आगे नहीं लगाई जा सकती।

iii. शुल्कों को जारी रखने से निचल स्तर के उद्योगों को गंभीर आर्थिक नुकसान होगा, जिसमें संयंत्र बंद होने, नौकरी छूटने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी और तैयार माल के आयात द्वारा घरेलू विनिर्माण के प्रतिस्थापन का जोखिम शामिल है।

iv. भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारी मांग-आपूर्ति अंतराल है।

v. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग में क्षति की अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई।

vi. घरेलू उत्पादक ने खुलासा किया है कि ऑक्सी रसायन की उसकी स्थापित क्षमता लगभग 80,000 एमटी है, जबकि कुल भारतीय मांग लगभग 3,30,000 एमटी है। इस प्रकार, घरेलू क्षमता विचाराधीन उत्पाद की कुल भारतीय मांग का केवल एक चौथाई भाग ही पूरा करती है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

128. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिसाइज़र और पेंट उद्योग में किया जाता है, अंतिम उत्पाद पर प्रस्तावित उपायों का प्रभाव लगभग 1% है।

ii. उत्पाद अतीत में पाटनरोधी शुल्क उपायों के अधीन रहा है, और निचले स्तर के उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

iii. पाटनरोधी शुल्क 8-9 वर्षों से लागू है लेकिन मांग में लगातार वृद्धि का रुझान दिखाई दे रहा है।

iv. जब संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत उच्च स्तर पर बनी रही, तो कुल मांग बढ़ गई। निचले स्तर का उद्योग समग्र मांग वृद्धि पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना उच्च इनपुट लागत को खपाने में सक्षम था।

v. संबद्ध देशों में उत्पादक केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भारतीय बाजार के दीर्घकालिक विकास में उनकी कोई रुचि नहीं है। यदि कहीं और बेहतर कीमतें उपलब्ध हों तो वे बिक्री को मोड़ देंगे। इसके विपरीत, भारतीय उद्योग, घरेलू होने के नाते, भारतीय उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करता है।

vi. आवेदक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,68,64,978 रुपये का सीएसआर व्यय आवंटित किया है। संपूर्ण सीएसआर राशि गैर-लाभकारी अस्पताल को वितरित की गई।

vii. यह आरोप कि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योगों पर लागत बढ़ जाएगी, तथ्यात्मक रूप से गलत है। पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का नगण्य प्रभाव होगा।

viii. यहां तक कि प्रयोक्ता अनुरोधों में स्वीकार किया गया है कि आयात के स्रोत के आधार पर शुल्क प्रभाव 0.5% और 7% के बीच अलग-अलग होता है। तथापि, यह देखते हुए कि उच्चतम शुल्क मलेशिया पर लागू होता है, वास्तविक प्रभाव 1% से कम है।

ix. यह आरोप कि शुल्क के परिणामस्वरूप संयंत्र बंद हो जाएंगे, नौकरी में कमी आएगी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी और तैयार माल के आयात द्वारा घरेलू विनिर्माण का प्रतिस्थापन होगा, केवल एक बयान है और बिना कोई साक्ष्य के कहा गया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

129. यह जांच की गई कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगी। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकॉर्ड और हितों की सूचना पर विचार करने पर आधारित है।

130. पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से आवेदक को होने वाली क्षति समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित की जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से विचाराधीन उत्पाद तथा भारत में संबद्ध सामानों का प्रयोग कर विनिर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय जारी रखने से घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में गिरावट दिखेगी, जिससे संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप होगी और उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद के विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

131. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। आयात उचित कीमतों पर होता रहेगा। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच एक उचित व्यापारिक क्षेत्र बनाए रखा गया है।

132. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, केएलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड, केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड और पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की है।

133. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत और लागू पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क पहुंच कीमत का केवल 1-3% है।

वर्तमान शुल्क

देश	एडीडी डॉ./एमटी	एडीडी रु./एमटी	पहुंच रु./एमटी	पहुंच के % के रूप में एडीडी
मलेशिया	26	2,262	85,033	3%
दक्षिण अफ्रीका	13	1,131	79,471	1%
यूएसए	24	2,063	89,589	2%

134. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से निचले स्तर के उद्योगों के लिए 1% से 7% तक निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तथापि, यह देखा जाता है कि जब लागू पाटनरोधी शुल्क पहुंच कीमत से

केवल 3% से कम है, तो पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 7% जितना अधिक नहीं हो सकता है।

135. विचाराधीन उत्पाद की ऐतिहासिक मांग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग लगातार बढ़ी है, जबकि 2020-21 की अवधि में गिरावट आई थी, जो कोविड की अवधि थी, जहां अर्थव्यवस्था कोविड के प्रकोप से प्रभावित हुई थी। इसके बाद मांग बढ़ी। यह देखा जाता है कि 2021-22 में मांग बढ़ी। यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क होने के बावजूद, उत्पाद की मांग में वृद्धि जारी रही। जब पाटनरोधी शुल्क लागू होता है तो मांग में वृद्धि से पता चलता है कि शुल्कों ने निचले स्तर के उद्योग के संचालन को प्रभावित नहीं किया।



136. यह देखा गया है कि निचले स्तर के उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का प्रभाव नगण्य है।

137. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता ने एक अन्य घरेलू उत्पादक को भारत में नार्मल ब्यूटानॉल के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2021 में, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने 38,000 एमटी की स्थापित क्षमता के साथ अन्य ऑक्सो-एल्कोहल के साथ नॉर्मल ब्यूटानॉल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। जांच के बाद की अवधि में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 90,000 एमटी की स्थापित क्षमता के साथ नॉर्मल ब्यूटानॉल के लिए एक संयंत्र चालू किया। यह यह नोट किया जाता है कि क्षमता का एक हिस्सा कैप्टिव खपत के लिए है, उत्पाद की घरेलू बाजार में भी आपूर्ति की जाती है। घरेलू उद्योग, बीपीसीएल और आईओसीएल की संयुक्त क्षमता देश में 80% से अधिक की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर टिप्पणियां

138. प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं:

i. प्राधिकारी यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि वर्तमान जांच 10 साल की अवधि से आगे पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक 'विशेष मामला' होने के योग्य है।

ii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1ख) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के तहत, पाटनरोधी शुल्क 5 साल बाद समाप्त हो जाते हैं जब तक कि उचित रूप से शुरू की गई समीक्षा उनके जारी रहने को सही नहीं ठहराती है।

iii. चूंकि घरेलू उद्योग की संरचना समय के साथ नए उत्पादक के प्रवेश या बाजार हिस्सेदारी में बदलाव से बदल सकती है, इसलिए निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग की पात्रता/आधार स्वत: मूल जांच के समान नहीं होती है।

iv. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में यह अपेक्षित है कि "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर" निर्णायक समीक्षा शुरू की जाए और इसीलिए यह पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता कि कौन घरेलू उद्योग है और समीक्षा के लिए समर्थन का स्तर क्या है।

v. एपीएल की हिस्सेदारी केवल 35% है और ऐसी हिस्सेदारी एक कम अनुपात है और घरेलू उत्पादन के "प्रमुख अनुपात" नहीं दर्शाता है। तदनुसार, एपीसीएल को वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं माना जा सकता है।

vi. यह निष्कर्ष कि बीपीसीएल के 2021 में उत्पादन शुरू होने से कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने 2021-22 में लाभ सूचित किया है, मनमाना है और गैर-आरोपण विश्लेषण की आवश्यकता को अनदेखा करता है।

vii. इस संबंध में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए गए आंकड़ों से वास्तव में पता चलता है कि तथाकथित पाटित आयातों की की दर में कमी आई है।

viii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में "अधिशेष क्षमताओं" की मौजूदगी की जांच नहीं की है।

ix. बाजार की स्थितियों और घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता के उत्तर में मलेशिया से आयात में उतार-चढ़ाव आया। जांच की अवधि में गिरावट के साथ निरंतर बढ़ते रुझान का अभाव यह पुष्टि करता है कि मलेशिया से पूर्ण आयात मात्रा में काफी वृद्धि नहीं है।

x. पहुंच कीमत की प्रतिशतता के रूप में केवल शुल्क दर की जांच करना निचले स्तर के उद्योगों पर प्रभाव का उचित उपाय नहीं है।

xi. ब्याज लागत में 2021-22 में 100 के सूचीबद्ध स्तर से जांच की अवधि में 169 तक वृद्धि हुई है। उच्चतर वित्तीय लागतें निवल लाभप्रदता को और भी प्रभावित करती हैं और आयातों से अलग हैं।

xii. भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता से संचालित होती है। अत:, यह दावा कि घरेलू उद्योग की कीमतें पाटन से प्रभावित होती हैं, निराधार है।

xiii. मूल रूप से शुल्क लगाए जाने से बाजार में आपूर्ति श्रृंखला ढांचे, कीमत पैटर्न, वैश्विक व्यापार प्रवाह और घरेलू मांग के संदर्भ में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। निर्णायक समीक्षा में बाजार स्थितियों की नए सिरे से जांच की आवश्यकता है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियां

139. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं:

i. प्राधिकारी ने बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी के मामले में पाया है कि कोई घरेलू बिक्री नहीं है, और इसलिए, सामान्य मूल्य एसजीए और लाभ मार्जिन के साथ उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। आवेदक प्राधिकारी से लाभ मार्जिन के निर्धारण के लिए अपनाई गई सीमा और पद्धति का खुलासा करने का अनुरोध करता है।

ii. लाभ मार्जिन केवल लाभदायक बिक्री पर आधारित होना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली के लिए लाभ को व्यापार के सामान्य क्रम से वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि घाटे वाले लेनदेन को लाभ की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।

iii. ग्लास फाइबर के आयात पर पाटनरोधी जांच के मामले में, लाभ मार्जिन को लाभदायक घरेलू बिक्री के आधार पर निर्धारित किया गया था।

iv. सहयोगी उत्पादकों के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने को सही नहीं ठहराता है। निर्णायक समीक्षा जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना रहेगी।

v. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे तीसरे देश की निर्यात कीमतों का विश्लेषण करे। यह निर्यातकों के कीमत निर्धारण व्यवहार का आकलन करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा में भी यह विश्लेषण किया।

vi. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह संबद्ध देशों में उत्पादकों के साथ अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी का विश्लेषण करें। प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा में भी यह विश्लेषण किया।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

140. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह देखा जाता है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत अनुच्छेदों में आवश्यक समझे जाने की सीमा तक हल किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। जो भी अनुरोध केवल पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति थे, और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

141. इस टिप्पणी के संबंध में कि आवेदक घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 50% से कम है, अत: प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार के मुद्दे की पहले ही प्रकटन विवरण में जांच की गई है। बीपीसीएल ने आवेदन-पत्र का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। ऐसी स्थिति में, आवेदक के उत्पादन का नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, और आवेदक घरेलू उद्योग है। वर्तमान आवेदन-पत्र घरेलू उद्योद्य द्वारा दायर किया गया था और इसीलिए नियम 23 की अपेक्षाएं पूरी की गई हैं।

142. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि यह दर्शाए जाने की आवश्यकता है कि वर्तमान जांच 10 वर्ष की अवधि से परे पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक 'विशेष मामला' होने के लिए पात्र है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा, बशर्ते कि, यदि केंद्र सरकार की इस समीक्षा में यह राय हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर पांच वर्षों तक आगे की अवधि के लिए ऐसे शुल्क लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है। शुल्क बढ़ाए जाने के लिए केवल आवश्यक शर्त यह है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। अधिनियम की धारा 9(क)(5) और नियमावली के नियम 23 के अनुसार उस अधिकतम अवधि के संबंध में कोई

प्रतिबंध नहीं है, जिसके लिए शुल्क लागू रह सकता है। शुल्क बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक तर्क केवल यह है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क उस अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो पाटन और क्षति की संभावना का सामना करने के लिए आवश्यक हो, या वापस लिया जा सकता है, यदि शुल्क जारी रखने के लिए कोई औचित्य न हो।

143. इस टिप्पणी पर कि भारतीय बाजार में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता से संचालित होती हैं। यह देखा जाता है कि आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, और प्राधिकारी ने पाया है कि आयात भारतीय बाजार पाटित कीमतों पर आए हैं। घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में नहीं लगा हुआ है और इसीलिए कीमत निर्धारण के लिए संगत बेंचमार्क भारत में आयातों की कीमत है। अत:, यह टिप्पणी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार गतिशीलता ने कीमतों को प्रभावित किया है, स्वीकार नहीं की जा सकती।

144. प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि प्राधिकारी ने अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी की जांच नहीं की है। नीचे दी गई तालिका रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर अधिशेष क्षमताएं दर्शाती है।

क्र.सं.	संबद्ध देश	स्थापित क्षमता (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	अधिशेष क्षमताएँ (एमटी)
1	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी	***	***	***
2	पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड	***	***	***

स्रोत: पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी") और बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के लिए उत्पादन और निर्यात का निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार किया गया विश्लेषण।

145. यह भी देखा गया है कि

i. पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी. के मामले में, उत्पादन का ***% निर्यात के लिए उपयोग किया जा रहा है।

ii. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी के मामले में, ***% उत्पादन का उपयोग निर्यात के लिए किया जा रहा है।

146. प्राधिकारी ने अतिरिक्त रूप से जांच की है कि क्या संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को निर्यात सामान्य मूल्य से कम है। नीचे दी गई तालिका में तीसरे देशों को किए गए निर्यात और संबंधित सामान्य मूल्य से कम निर्यात की मात्रा दिखाई गई है।

क्र.सं.	संबद्ध देश	कुल निर्यात	तीसरे देश के निर्यात सामान्य मूल्य से कम	पाटित निर्यात का हिस्सा	रेंज (%)
1	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी	***	***	***	40-50
2	पेट्रोनास केमिकल मार्केटिंग (लाबुआन) लिमिटेड	***	***	***	40-50
3	यूएसए	***	***	***	60-70
4	दक्षिण अफ्रीका	***	***	***	90-100

स्रोत: पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ("पीसीडी") और बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के लिए निर्यातों का निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार किया गया विश्लेषण और दक्षिण अफ्रीका और यूएसए के लिए ट्रेडमैप डेटा के अनुसार किया गया है।

147. यह देखा गया है कि तीसरे देशों को निर्यात का बड़ा हिस्सा पाटित कीमतों पर है।

148. सामान्य मूल्य की गणना में लाभ मार्जिन निर्धारित करने के लिए अपनाई गई पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के उत्तर में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएएसएफ के लिए घरेलू बिक्री के अभाव में, उक्त उत्पादक और निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया गया है। यह निर्माण उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री और प्रशासनिक व्यय के लिए उचित संयोजनों के साथ संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर है।

149. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर इस टिप्पणी के संबंध में कि पहुंच कीमत की प्रतिशतता के रूप में केवल शुल्क दर की जांच निचले स्तर के उद्योगों पर प्रभाव का उचित उपाय नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपायों के प्रभाव की जांच पहुंच कीमतों की प्रतिशतता के रूप में शुल्क दर के परिकलन तक प्रतिबंधित नहीं की गई हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने पहले दावा किया था कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का निचले स्तर के उद्योगों के लिए निष्पादन पर 1% से 7% तक प्रभाव होगा।

विचाराधीन उत्पाद का 1:1 खपत मानदंड नहीं है और इसीलिए यह पाया गया था कि जब शुल्क खुद ही आयात कीमत का लगभग 3% है तो शुल्क का प्रभाव 7% जितना अधिक नहीं हो सकता। यह भी देखा जाता है कि वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी आर्थिक हित प्रश्नावली में शुल्क का प्रभाव दिया है। 7% का प्रभाव 7.5% आधारभूत सीमा शुल्क शामिल करके भी निर्धारित किया गया है।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

150. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि: -

क. विचाराधीन उत्पाद "नॉर्मल ब्यूटानॉल" या "एन-ब्यूटाइल अल्कोहल" है। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

ख. यह आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। घरेलू उद्योग का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

ग. आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से एक पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन-पत्र नियमावली के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

i. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी. को छोड़कर संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

ii. गैर-प्रतिभागी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, और ये मार्जिन सकारात्मक और काफी हैं।

iii. वर्तमान समीक्षा जांच में उत्पाद के पाटन की निरंतरता है, और जांच से पता चला है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में उत्पाद का पाटन जारी रहने की संभावना है।

ड. घरेलू उद्योग को क्षति

i. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही रूप में काफी बढ़ गई है।

ii. कच्चे माल की लागत में ***% वृद्धि के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात कीमत में ***% गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की

लागत और कीमत के कम कीमत पर है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है।

iii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद घरेलू उद्योग उत्पादन नहीं बढ़ा सका।

iv. घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष में रु. [***] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रु. [***] प्रति एमटी की हानि तक हो गया। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान ब्याज-पूर्व हानि, नकद हानियों और नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय सहित हानियां हुई हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

च. घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना

i. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। घरेलू बाजार में आयात आ रहे हैं, जिनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ii. मलेशिया से बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी और पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी ने भाग लिया है। जांच से पता चला है कि उत्पादक काफी हद तक निर्यात-उन्मुख हैं क्योंकि वे अपने उत्पादन का क्रमशः *** एमटी और *** एमटी निर्यात कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के मामले में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि निर्यात क्रमशः उनकी क्षमता का ***% और ***% है।

iii. तीसरे देशों को निर्यात का काफी हिस्सा हानिकारक और आकर्षक कीमतों पर है। संचयी कीमत आकर्षक निर्यात *** एमटी है जो भारत में मांग का ***% है।

छ. भारतीय उद्योग के हित

i. पाटनरोधी शुल्क 9 वर्षों से अधिक समय तक लागू रहा। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप निचले स्तर के उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

ii. उपायों जारी रखने का निचले स्तर के उद्योगों पर नगण्य प्रभाव होता।

iii. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में निरंतर क्षति हुई है। अत:, शुल्क का निरंतर लगाया जाना घरेलू उद्योग के हित में होगा।

ढ. <u>सिफारिश</u>

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही लागू कानून के अनुसार की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत अधिसूचित किया गया और उन्हें जांच के तहत मामलों पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, जिसमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क, पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना और भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल है। निर्णायक समीक्षा के अनुसरण, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की आवश्यकता है।

152. यह निष्कर्ष निकालने पर कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि पाटनरोधी उपाय बंद किए जाने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/बार बार होने की संभावना है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की राशि यह देखते हुए संशोधित किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि शुल्क पाटन और क्षति की संभावना के आधा पर बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में, प्राधिकारी द्वारा क्षति की संभावना पाई गई है, अत: वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्कों का संशोधन यह देखते हुए उचित नहीं होगा कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आधार पर बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित है।

153. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लेने वाले उन उत्पादक निर्यातकों को छोड़कर, अधिसूचना संख्या 21/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 अप्रैल 2021 और 02/2026- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 जनवरी, 2026 द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक मानते हैं। उन असहयोगी उत्पादक निर्यातकों को निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अवशिष्ट शुल्क प्रदान किया गया है।

154. यहां ऊपर सिद्ध किए गए अनुसार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क पांच (5) वर्षों की अगली अवधि के लिए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	यूओएम	मुद्रा
1	2905 13 00	नॉर्मल ब्यूटानॉल या "एन-ब्यूटाइल एल्कोहल"	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी.	26.59	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी	51.42	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी उत्पादक	149.31	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश	मलेशिया	कोई उत्पादक	149.31	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका सहित कोई देश	कोई उत्पादक	13.24	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए को छोड़कर कोई देश	दक्षिण अफ्रीका	कोई उत्पादक	13.24	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	कोई उत्पादक	24.16	एमटी	यूएसडॉ.

8	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए को छोड़कर कोई देश	यूएसए	कोई उत्पादक	24.16	एमटी	यूएसडॉ.

नोट-उपर्युक्त कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन-पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित घोषणा दिखाई देगी, जो उसके नाम और कार्य से पहचाना जाएगा, जो इस प्रकार तैयार किया गया है:

''मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस बीजक द्वारा भारत को निर्यात के लिए बेची गई (उत्पाद संबंधित) की मात्रा (देश के नाम) में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है। यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य कंपनियों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के पूर्वाग्रह के बिना है।''

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

155. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)